

# मैं अपने बच्चे का सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पंजीकरण कैसे कर सकता/सकती हूँ?

अपने बच्चे को सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पंजीकृत करने के चुनाव के लिए धन्यवाद। हम डिस्ट्रिक्ट में, आपके बच्चे के स्वागत के लिए उत्सुक हैं और इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि क्लास में जल्द से जल्द आपके बच्चे का नाम लिख दिया जाए और उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए।

## मैं पंजीकरण कब कर सकता/सकती हूँ?

विद्यार्थियों के पंजीकरण की सुविधा मौजूदा स्कूल वर्ष के दौरान पूरे साल रहेगी। स्कूल के आने वाले साल के लिए पंजीकरण जनवरी से शुरू होगा। इसमें किंडरगार्टन के विद्यार्थी शामिल हैं।

## मैं पंजीकरण कैसे कर सकता/सकती हूँ?

कृपया [www.surreyschools.ca](http://www.surreyschools.ca) पर जाकर अपने नजदीकी स्कूल में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यहां दाईं ओर सबसे ऊपर दिए दूबार पर, 'Register Today' बटन पर क्लिक करें या नीचे दिये QR कोड को स्कैन करें। इस साइट में स्कूल खोजने के लिए एक दूब दिया गया है जिससे आप अपने क्षेत्र के स्कूल को खोज सकते हैं। यदि आपको सहायता की जरूरत है, तो अपने स्थानीय स्कूल या मददगार से संपर्क करें।



## पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है?

पंजीकरण के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत है:

**भाग एक:** जरूरी दस्तावेज (जरूरी नहीं कि वे ब्रिटिश कोलंबिया से ही हों)

1. माँ या पिता/कानूनी अभिभावक का फोटो पहचान पत्र जैसे: ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो बी.सी. सर्विस कार्ड, बीसीआईडी कार्ड। जरूरी नहीं कि यह दस्तावेज ब्रिटिश कोलंबिया से ही जारी किये गये हों।
2. कानूनी संरक्षक होने का प्रमाण (जैसा कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर दिखाया गया है, या दूसरे उपयुक्त कानूनी दस्तावेज, जैसे, लैंडिंग इमिग्रेंट दस्तावेज या संरक्षण का आदेश)
3. विद्यार्थी की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (जैसे, जन्म प्रमाणपत्र या पासपोर्ट)

**भाग दो:** बी.सी. में माता या पिता/संरक्षक के निवास का प्रमाण पत्र

सरकार द्वारा जारी वैध दस्तावेज जिसमें निवासी के तौर पर माता या पिता/कानूनी संरक्षक का पता हो (जैसे, बी.सी. ड्राइविंग लाइसेंस, बी.सी. सर्विस कार्ड, बीसीआईडी या आईसीबीसी के पंजीकरण का दस्तावेज, आदि)। अगर आपके पास आपके घर का पता दर्शाने वाले सरकार द्वारा जारी वैध दस्तावेज (कम से कम दो दस्तावेज दिखाएं) नहीं हैं, तो जो दस्तावेज आपके लिए मददगार हो सकते हैं, वे हैं:

- संपत्ति की खरीद का दस्तावेज
- किसी सेवा के उपयोग का बिल
- किरायानामा (या मकान मालिक का पत्र)
- स्वास्थ्य से जुड़े कागजात (मेडिकल रिपोर्ट या पत्र)
- निवासी के नाम और पते वाला पत्र
- रोजगार वेतन भुगतान पर्ची
- बैंक स्टेटमेंट
- नियोक्ता का पत्र
- इंशोरेंस स्टेटमेंट या पॉलिसियाँ
- पब्लिक नोटरी की स्टेटमेंट या पत्र
- निवासी का नाम और पता दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज

हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट विद्यार्थी या उसके माता-पिता की जानकारी को संघीय आव्रजन अधिकारियों को आमतौर पर तब तक साझा नहीं करता है जब तक कोई ऐसा विशेष मामला नहीं हो जहां कानूनन ऐसा करना आवश्यक हो।

बी.सी. सरकार सभी विद्यार्थियों से आग्रह करती है कि वे बी.सी. में अपनी टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दें। यह विनियमन सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को बीमारियों के फैलाव को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करता है। टीकाकरण की स्थिति की सूचना देने संबंधी विनियमन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए कृपया [immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation](http://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation) पर जाएँ या [Fraserhealth.ca/immunizations](http://Fraserhealth.ca/immunizations) देखें।



पंजीकरण करते समय, हम माता/पिता और संरक्षकों को अपने बच्चे से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि बच्चे का स्कूल में सफलतापूर्वक प्रवेश हो सके और इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक दल विद्यार्थी की सीखने से जुड़ी विशिष्ट और विविध जरूरतों के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट कार्ड और अन्य सहायक दस्तावेज हमेशा मददगार साबित होते हैं।